

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2017/माघ 3, 1938	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 324
No. 24]	DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2017/MAGHA 3, 1938	[N.C.T.D. No. 324

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

फा. सं. 03(171)/2016/डीआईएसएमएच/होम्य./स्था./आरआर/पार्ट फा.-1/1195-सी एस आर.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं. फा. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आयुष निदेशालय में भेषजज्ञ (फार्मसिस्ट)/औषध-वितरक (होम्योपैथी) के पद के भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व हुई बातों या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आयुष निदेशालय में भेषजज्ञ (फार्मसिस्ट) (होम्योपैथी) के समूह 'ग' पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(क) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भेषजज्ञ (फार्मसिस्ट) (होम्योपैथी) के समूह 'ग' पद के भर्ती नियम, 2016 कहा जा सकेगा।  
(ख) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, वेतन समूह तथा ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति  
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या  
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव.**—इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	भेषजज्ञ (फार्मसिस्ट) (होम्योपैथी)
2.	पदों की संख्या	:	114* (2016) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	वेतन समूह -1, 5200-20200/-रुपये + ग्रेड वेतन 2800/-रुपये  <b>टीप:</b> नियमित सेवा के दो वर्ष पूरे होने एवं सतर्कता अनापत्ति मिलने के पश्चात् औषध-कारक को (गैर- प्रकार्यात्मक) ग्रेड, वेतन समूह-2, रुपये 9300-34800/- जमा 4200/-रुपये ग्रेड वेतन में रखा जाएगा।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)  <b>टीप:</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	1. 10+2 विज्ञान विषय सहित 2. सरकारी बोर्ड/संस्थान से न्यूनतम दो वर्ष का होम्प्योपैथी फार्मसी में डिप्लोमा
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	<b>टीप :</b> सीधी भर्ती द्वारा  पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी जो कॉलम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	‘ग’ वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण एवं पदोन्नति पर विचार करने हेतु):— (1) निदेशक (आयुष), —अध्यक्ष (2) उप-निदेशक (होम्योपैथी) —सदस्य (3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर  
रश्मि कृष्णन, विशेष सचिव (आयुष)

## HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2017

**F. No. 3(171)/2016/DISMH/Homoeo/Estt./RR/Pt. file-I/1195-C.S.R.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68 -DH(S) dated the 24<sup>th</sup> September, 1968, and in supersession of the recruitment rules for the post of Pharmacist/Dispenser (Homoeopathy) in the Directorate of AYUSH under the Health and Family Welfare Department except as respects things done as omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the Group ‘C’ post of Pharmacist (Homoeopathy) in the Directorate of AYUSH under the Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These Recruitment rules may be called, the Group ‘C’ posts of Pharmacist (Homoeopathy) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Number of posts, its classification and Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay/ pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment of the said post, age-limit and other matters relating thereto, shall be as specified in the column (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person,—

(i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in upper age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or Non – selection Post	Age limit for the direct recruits
1	2	3	4	5	6
PHARMACIST (HOMOEOPATHY)	*114 [2016] Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services Group – ‘C’ Non Gazetted Non Ministerial	Pay Band 1 - Rs. 5,200 – 20,200 plus Grade Pay Rs. 2,800/- <b>Note:</b> Shall be placed in Pharmacist (Non-functional Grade) with Pay Scale of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 4,200/- in Pay Band – 2, on completion of two years of regular service subject to vigilance clearance.	Not applicable	Between 18-27years (relaxable for Government Servants according to instructions or orders issued by the Central Government/ State Government). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment : whether by Direct recruitment or by promotion or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
1. 10 + 2 with science subject. 2. Diploma in Homoeopathy Pharmacy of not less than two years from a Government Board/ institution.	Not applicable	Two Years	<b>Note :</b> Direct recruitment Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government/State Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department and possessing the education and other qualification prescribed for direct recruit under Column No. 7.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation and promotion of existing Pharmacist (H):—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director (AYUSH) — Chairman</li> <li>2. Deputy Director (H) —Member</li> <li>3. Chief Medical Officer (HQ) —Member.</li> </ol>	Not applicable.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of  
National Capital Territory of Delhi,

RASHMI KRISHNAN, Spl. Secy. (AYUSH)